



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022025-261320
CG-DL-E-27022025-261320

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 2025/फाल्गुन 8, 1946

No. 117]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2025/PHALGUNA 8, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 151(अ).—चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (सीसीएस नियाम) नियमावली एवं विनियम के विनियमन 20 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए तथा चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (सीसीएस नियाम), महानिदेशक भर्ती नियमावली, 2017 के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार सीसीएस नियाम में महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ --(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (सीसीएस-नियाम) महानिदेशक भर्ती नियम, 2025' नियमावली है।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं आदि**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता :-** वह व्यक्ति,
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या
 (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है,
 उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:
 परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां सीसीएस नियाम की कार्यकारी परिषद की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में दर्ज करके तथा केन्द्र सरकार के परामर्श से, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में शिथिलता दे सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयनित पद या गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती की आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महानिदेशक	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव है।	समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 (1,44,200 रु. से 2,18,200/-)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि; यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा।	
(10)	(11)	
प्रतिनियुक्ति द्वारा (खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी/ शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय (I) मूल संवर्ग/विभाग/संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद; या	

	<p>वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13ए में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा या मूल कैडर/विभाग/संगठन में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 या समकक्ष में 3 वर्ष की सेवा।</p> <p>(ii) उम्मीदवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि उत्कृष्ट होनी चाहिए। कृषि विपणन, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि व्यवसाय विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंधन, सहकारिता, विकासमूलक प्रशासन, ग्रामीण विकास या कृषि और पशुपालन तथा डेयरी और मत्स्य पालन जैसे किसी भी संबद्ध विषय में शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>वांछनीय: अधिकारी के पास विकासमूलक प्रशासन, शैक्षणिक, अनुसंधान आदि में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को शामिल करने के उपरांत, सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक न हो।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	---

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>कोई विभागीय पदोन्नति समिति नहीं है।</p> <p>इस पद पर नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से गठित खोज-सह-चयन समिति द्वारा सुझाए गए/अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से की जाएगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण अध्यक्ष विभाग 2. महानिदेशक, आईसीएआर सदस्य 3. अपर सचिव (विपणन), कृषि एवं सदस्य किसान कल्याण विभाग 4. एक बाह्य विशेषज्ञ जिसे सचिव, कृषि सदस्य एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा नामित किया जाएगा 5. संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं सदस्य -सचिव किसान कल्याण विभाग 	<p>लागू नहीं।</p>

[फा. सं. 21015/2/2021- विपणन-I (पार्ट- I)]

शकुन परदासनी, निदेशक (विपणन-I)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2025

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by regulation 20 (C) of the Chaudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing (CCS NIAM) Rules & Regulations and in supersession of the Chaudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing (CCS NIAM), Director General Recruitment Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Director General in the CCS NIAM, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the ‘Chaudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing’ (CCS-NIAM) Director General, Recruitment Rules, 2025’.
- (2) They shall come into force on the date of notification in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification, Level in the pay matrix.** The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.--** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these Rules
4. **Disqualification.** - No Person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power of Relax.** - Where the Executive Council of CCS NIAM is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of agw-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit of direct recruit.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director General	01* (2025) *subject to variation dependent on workload.	Group ‘A	Level 14 in Pay Matrix (Rs.1,44,200 to 2,18,200/-).	Not Applicable.	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation; if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion deputation absorption, grades from which promotion/deputation absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation (through Search-cum-Selection Committee)	<p>Officer of the Central Government/State Government/ Financial Institutions/ Educational Institutions/ Universities holding</p> <p>(I) Analogous posts on regular basis in the parent cadre/department/organization; Or</p> <p>With 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level-13A of the pay matrix or 3 years service in level13 of the pay Matrix or equivalent in the parent cadr/department/organization.</p> <p>(ii) The candidate should have excellent academic background. Those with academic qualification in the field of Agricultural Marketing, Agricultural Economics, Agri Business Development, Economics, Finance, Management, Cooperation, Development Administration, Rural Development or any of the Agriculture and allied subject like Animal Husbandry and Dairying and Fisheries will be preferred.</p> <p>Desirable: The Officer should have 5 years experience in Development Administration, Academics, Research etc.</p> <p>Note1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 58 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
No DPC exists. Appointment to the post shall be made with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet (AC) from a panel of three names suggested/recommended by a Search-cum-Selection Committee specifically constituted by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Committee shall consist of the following members: 1 Secretary, DA&FW	

[F. No. 21015/2/2021-M-I (Part-I)]

SHAKUN PARDASANI, Director (Marketing-I)